



# **SRI AMARNATH FINANCE LIMITED**

Regd. Off. : 4883-84, Second Floor, Main Road, Kucha Ustad Daag, Chandni Chowk, Delhi-110006  
E-mail : sriamarnath@hotmail.com, amarnath01finance@gmail.com  
Website : www.sriamarnathfinance.in CIN : L74899DL1985PLC020194

Dated: 03<sup>rd</sup> September, 2024

To,

**DEPARTMENT OF CORPORATE SERVICES  
BSE LIMITED**

Phiroze Jeejeebhoy Towers  
25<sup>th</sup> Floor, Dalal Street  
Mumbai - 400001

**SCRIP CODE: 538863**

**KIND ATTN: MANAGER – LISTING DEPARTMENT**

**SUB: SUBMISSION OF NEWSPAPER ADVERTISEMENT OF 39<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL  
MEETING PURSUANT TO REGULATION 47 OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015**

Dear Sir,

Please find enclose a copy of Newspaper Advertisements published on September 03, 2024 with regard to Notice to Members regarding 39<sup>th</sup> Annual General Meeting, e-voting and Book Closure date.

This information may kindly be treated as compliance of regulation 47 & other regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 from our end.

Thanking you,

Yours faithfully

For and on behalf of

**SRI AMARNATH FINANCE LIMITED**



**RAHUL KAPASIYA**

**COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER**

**M. No.: A70811**

Encl: a/a



**DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT-3)**  
GROUND FLOOR, S.C.O. 33-34-35, SECTOR 17-A, CHANDIGARH-160017

**Case No. : OA/1091/2023**  
Summons under Sub-Section (4) of section 19 of the Act, read with Sub-rule (2A) of rule 5 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993. Exh. No. 15351  
**UNION BANK OF INDIA VS**  
**MESSRS MALIK AUTOMOBILES AND ANR.**

To,  
(1) Messrs Malik Automobiles And Anr., Plot No. 154, Industrial Area, Phase-II, Panchkula, Haryana-134113.  
Also At:-  
Second Address : Shop No. 2, Gandhi Service Station, Manimajra, Chandigarh.

Also At:-  
Third Address : Shop No.1538/1. Rajiv Colony, Mauli Jagran Sector 17, Panchkula, Haryana.  
(2) Vijender Malik Wife of. Sh. Santokh Singh, R/o House No.58, Maha Dev Colony, Surajpur, Panchkula, Haryana.

**SUMMONS**  
WHEREAS, OA/1091/2023 was listed before Hon'ble Presiding officer/Registrar on 02.03.2024.

WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of **Rs. 36,04,271/-** (application along with copies of documents etc. annexed).

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under :-  
(i) To show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted:

(ii) To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application :

(iii) You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties;

(iv) You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal;

(v) You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on **16.10.2024 at 10:30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of this tribunal on this dated **05.03.2024.**

**DEBTS RECOVERY TRIBUNAL CHANDIGARH (DRT-3)**  
GROUND FLOOR, S.C.O. 33-34-35, SECTOR 17-A, CHANDIGARH-160017

**Case No. : OA/666/2022**  
Summons under Sub-Section (4) of section 19 of the Act, read with Sub-rule (2A) of rule 5 of the Debts Recovery Tribunal (Procedure) Rules, 1993. Exh. No. 20615  
**UNION BANK OF INDIA VS**  
**M/S CONNECTING WORLD TRADE PVT. LTD.**

To,  
(1) M/s Connecting World Trade Pvt. Ltd., Through its Director SCF No. 47, Second Floor, Phase 7, Industrial Area, Mohali, Punjab-160055.  
Also At:- SCO 40, Main Centre, Sector 7 -C, Chandigarh.

(5) Sh. Lakhvir Singh S/o Harminder Singh, House No. HL-184, Phase-1, Sector 55, Mohali.

**SUMMONS**  
WHEREAS, OA/666/2022 was listed before Hon'ble Presiding officer/Registrar on 28.05.2024

WHEREAS this Hon'ble Tribunal is pleased to issue summons/ notice on the said application under section 19(4) of the Act, (OA) filed against you for recovery of debts of **Rs.42,16,742/-** (application along with copies of documents etc. annexed).

In accordance with sub-section (4) of section 19 of the Act, you, the defendants are directed as under :-  
(i) To show cause within thirty days of the service of summons as to why relief prayed for should not be granted:

(ii) To disclose particulars of properties or assets other than properties and assets specified by the applicant under serial number 3A of the original application :

(iii) You are restrained from dealing with or disposing of secured assets or such other assets and properties disclosed under serial number 3A of the original application, pending hearing and disposal of the application for attachment of properties;

(iv) You shall not transfer by way of sale, lease or otherwise, except in the ordinary course of his business any of the assets over which security interest is created and/or other assets and properties specified or disclosed under serial number 3A of the original application without the prior approval of the Tribunal;

(v) You shall be liable to account for the sale proceeds realised by sale of secured assets or other assets and properties in the ordinary course of business and deposit such sale proceeds in the account maintained with the bank or financial institutions holding security interest over such assets.

You are also directed to file the written statement with a copy thereof furnished to the applicant and to appear before Registrar on **01.10.2024 at 10:30 A.M.** failing which the application shall be heard and decided in your absence.

Given under my hand and the seal of this tribunal on this dated **29.05.2024.**

**SRI AMARNATH FINANCE LIMITED**  
CIN:L74899DL1985PLC020194  
Regd. Office: 4883-84, Second Floor, Main Road, Kucha Ustad Dag, Chandni Chowk, Delhi-110006  
Email:amarnath1finance@gmail.com, Tel: 011-23953204/23392222  
Website: www.sriamarnathfinance.in

**NOTICE OF THE 39TH ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING & BOOK CLOSURE**

NOTICE is hereby given that the 39th Annual General Meeting of the Members of SRI AMARNATH FINANCE LIMITED will be held on Friday, 27th day of September, 2024 at 11:00 A.M. at "NISKAM SANKIRTAN MANDAL", 19/31-32, MOTI NAGAR (BHAGAT DES RAJ CHANNA MARG), NEW DELHI-110015 to transact the business (es) as mentioned in the notice of AGM which is being circulated for convening the AGM. The Company has sent the notice of AGM for Financial Year 2023-24 on September 02, 2024 through electronic mode to the members whose 'email addresses are registered with the Company/Depositories. The Annual Report for Financial Year 2023-24 is available and can be downloaded from the Company's website (www.sriamarnathfinance.in).

In compliance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of The Companies (Management & Administration) Rules, 2014 ("the Rules") including any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force, guidelines prescribed by the MCA, the members are provided with the facility to cast their votes on all resolutions set forth in the notice of AGM using electronic voting system (i-vote) provided by Bighshare Services Private Limited. The voting of members shall be in proportion the equity shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Friday, 20th September, 2024 ("Cut-off date").

The remote E-Voting period commences on Tuesday, 24th September, 2024 (9:00 am) and ends on Thursday, 26th September, 2024 (5:00 pm). During this period members may cast their votes electronically. The remote e-voting module shall be disabled by Bighshare i-vote thereafter. The facility for voting, either through electronic voting system or polling paper shall also be made available at the AGM and Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the AGM. The Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again.

The documents pertaining to the items of business to be transacted in the AGM are open for inspection at the Registered Office of the Company during business hours on any working day. Pursuant to regulation 42 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and section 91 of the Companies Act, 2013, The Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 21st September, 2024 to Friday, 27th September, 2024 (both days inclusive) for the purpose of 39th AGM of the Company.

Any person who acquires shares and become member of the Company after the dispatch of notice of the AGM by the Company and whose name appear in the register of members of the Company or in the statement of beneficial ownership maintained by the Depositories as on cut-off date i.e. 20th September, 2024 can view the notice convening the AGM on the website of the Company viz [www.sriamarnathfinance.in](http://www.sriamarnathfinance.in), website of stock exchange viz BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the website of Bighshare viz <https://vote.bighshareonline.com>. Such members can exercise their voting rights through e-voting by following the procedure as mentioned in the said notice of AGM. Members are also informed that in case shareholders/ investor have any queries regarding E-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and i-Vote e-Voting module available at <https://vote.bighshareonline.com>, under download section or you can email us to [ivote@bighshareonline.com](mailto:ivote@bighshareonline.com) or call us at: 1800 22 54 22.

For SRI AMARNATH FINANCE LIMITED  
Sd/-  
Rakesh Kapoor  
(Managing Director)

Date: 02.09.2024  
Place: New Delhi

**Form no INC-26**  
(Pursuant to rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014)  
Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one State to another  
BEFORE THE REGIONAL DIRECTOR, NORTHERN REGION, NEW DELHI IN THE MATTER OF SUB-SECTION (4) OF SECTION 13 OF COMPANIES ACT, 2013, AND CLAUSE (a) OF SUB-RULE (5) OF RULE 30 OF THE COMPANIES (INCORPORATION) RULES, 2014 AND

IN THE MATTER OF Armatrix Automations Private Limited (CIN: U28299UP2024PTC195176) B 907, Ratan Planet, Naramau, Kalyanpur, Kanpur Nagar, Naramau, Kanpur Nagar, Naramau, Uttar Pradesh, India, 209217

.....PETITIONER

Notice is hereby given to the General Public that the company proposes to make application to the Regional Director under section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra ordinary general meeting held on 31<sup>st</sup> July, 2024, to enable the company to change its State of Uttar Pradesh, Kanpur to the State of Maharashtra at Mumbai.

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21 portal ([www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in)) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director, Northern Region, at the address B-2 Wing, 2nd Floor, P. Deendayal Anyodaya Bhawan, Cgo Complex, New Delhi-110003, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner company at its registered office at the address mentioned below:

For and on behalf of the Petitioner  
Sd/-  
Vishrant Chiragbhai Dave  
Director  
DIN: 10451295  
Address: 5/603 FAM Society Sec-11 Near Kailash Udayan Koper Khairane Navi Mumbai Thane Maharashtra 400709  
Date: 03, Sept. 2024  
Place: Kanpur

Current registered office of the Company: B 907, Ratan Planet, Naramau, Kalyanpur, Kanpur Nagar, Naramau, Kanpur Nagar, Naramau, Uttar Pradesh, India, 209217

**BHANOT CONSTRUCTION & HOUSING LTD.**  
Regd. Office: 310-311, Bhano Corner-1, Pamposh Enclave, Greater Kailash -1, New Delhi -110048  
CIN: L45201DL1976PLC008294, Ph: 011-26212120  
**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**  
Notice is hereby given that the 47<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of **BHANOT CONSTRUCTION & HOUSING LTD.** ("The Company") will be held at 11 A.M. on Friday, 27<sup>th</sup> day of September 2024 at **SAMAWAR Restaurant, B-36, Pamposh Enclave, G.K-1, New Delhi-110048.**  
Company has sent Notice of AGM & Annual Report for the Financial Year 2023-2024 on Tuesday, 3<sup>rd</sup> September 2024 through courier to the registered members as on date. Cut-off date of voting by poll at the venue of the meeting shall be on 23<sup>rd</sup> September 2024. Persons who have accrued shares and become members of the company after dispatch of aforementioned. Notice and who are eligible members as on the cut-off date may also vote at the meeting. The register of members and shares transfer register of members and share transfer register shall remain closed from September 25<sup>th</sup> 2024 to September 29<sup>th</sup> 2024. Queries may be e-mailed to [bandgroup2@gmail.com](mailto:bandgroup2@gmail.com) or asked.

For **Bhanot Construction & Housing Ltd.**  
Sd/-  
Rajeev Bhanot  
Managing Director  
DIN: 50032413  
Date: September 2<sup>nd</sup> 2024  
Place : New Delhi

**"IMPORTANT"**

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

**PUNJAB & SIND BANK**  
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)  
**ZONAL OFFICE FARIDKOT**  
**CORRIGENDUM**

Refer to our E Auction Sale Notice Published in Financial Express & Rozana Spokesman Dated 24.08.2024 for the account of **M/s Deep Constructions of our Kotkapura Branch, Mentioned at Sr. No. 01** has been withdrawn from E Auction Scheduled for 18.09.2024. Authorised Officer

**PUBLIC NOTICE**

Before the Central Government Registrar of Companies, Delhi  
In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008, Section 13 (3) AND rule 17 of the Limited Liability Partnership Rules, 2009. In the matter of MONIMO LLP as petitioner having its registered office at Plot No. 1353, Sector 45, Near Delhi Public School, Gurgaon, Haryana, India, 122003.

Notice is hereby given to the general public that the LLP proposes to make a petition to the Registrar of Companies, Delhi under section 13 (3) of the Limited Liability Partnership Act, 2008 seeking permission to change its Registered office from the state of "Haryana" to the state of "Maharashtra". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the registered office of the LLP may deliver or cause to be delivered or send by Registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition supported by an affidavit to the Registrar of Companies, Delhi, within 21 (twenty-one) days from the date of publication of this notice with a copy to the petitioner LLP at its registered office at the address mentioned above.

For and on behalf of  
Monimo LLP  
Sd/-  
Nikhil Gupta (DPIN : 09126474)  
Designated Partner  
Date : 02.09.2024 Address : 1353/45, Near Delhi Public School, Gurgaon, Haryana - 122003

**Canara Bank**  
(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)  
**POSSESSION NOTICE (For Immovable Property) Section-13(4)**

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the Canara Bank, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13 (12) read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice Calling upon the Borrower/Guarantors and owner of the property/surety to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice. The Borrower/Guarantors having failed to repay the amount notice is hereby given to the Borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section (4) of Section 13 of the Act read with rule 6 of the Security (Enforcement) Rules, 2002 on this mentioned date. The borrower's attention is invited to the provisions of sub-sec (8) of Section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets. The borrower/surety/owner of property in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Canara Bank, Respective Branch for Notice amounts and interest thereon.

Sr. No.	Branch & Name of the Borrower/Guarantor	Description of Immovable/Movable Property/ Owner of Property	Notice Date	Outstanding Amount
1.	<b>Branch: Khurja (18650)</b> <b>Borrower: Navnit Kumar Garg S/o Vipin Kumar Garg, 265 Near Pnb Bank Jewar Road, Khurja Junction Khurja Bulandshahr Uttar Pradesh 203131.</b> <b>Vandana Garg W/o Navnit Kumar Garg, 265 Near Pnb Bank Jewar Road, Khurja Junction Khurja Bulandshahr Uttar Pradesh 203131.</b> <b>Guarantor: Shubham Garg S/o Rajesh Kumar Garg, H No 79 Jewar Road, Khurja Junction Maina Moipur Khurja Bulandshahr Uttar Pradesh 203131.</b> <b>A/c No.: 86507830000090</b>	Two Adjacent Plots Part Of Khasra No. 9 (old) No 665 & New Khasra No 945K And 945Kh Measuring 126 Sq. Mtrs Situated At Village Maina Mauipur Tehsil Khurja Dist. Bulandshahr, Owned By Navnit Kumar Garg S/o Vipin Kumar Garg & Vandana Garg W/o Navnit Kumar Garg and Bounded: North: Rasta, South: House Of Ramesh Chandra Sharma, East: House Of Chakkan Lal Gupta, West: Plot Dr. Neeraj Singh And Others.	<b>Demand Notice Date: 25.04.2023</b> <b>Possession Notice Date: 31.08.2024</b>	Rs. 21,02,191.00 + Further Interest & other Charge. (Rs. 24,28,321.64 As on 31.08.2024 and interest thereon)
2.	<b>Branch: Meerpur (19840)</b> <b>Borrower: Shiv Kumar S/o Nemchandra, 325 Saray Mustafa, Khurja Bulandshahr Uttar Pradesh 203131.</b> <b>A/c No.: 160000936070</b> <b>(CERSAI ID: 400063858422)</b>	Residential Property Measuring Area 140/6 Sq.mtr. situated At Part Of Khasra No. 1711, Mohalla Sarai Murtza Khan, Near Budh Bazar & Batulal Rasan Dealer Shop Tehsil Khurja, Dist. Bulandshahr Uttar Pradesh 203131, Owned By Shiv Kumar S/o Nemchandra and Bounded As per Deed: North: House of Mr. Jameel & Others, South: House of Mr. Raj Kumar, East: Rasta 8 feet wide, West: House of Mr. Raj Kumar, Bounded As per Site: North: House of Mr. Jameel & Others, South: House of Mr. Raj Kumar, East: House of Mr. Mukut, West: Rasta 6 Feet wide.	<b>Demand Notice Date: 20.06.2024</b> <b>Possession Notice Date: 31.08.2024</b>	Rs. 32,20,661.86 + Further Interest & other Charge. (Rs. 32,70,873.86 As on 31.08.2024 and interest thereon)
3.	<b>Branch: Meerpur (19840)</b> <b>Borrower: Rajesh C/o Raghuvir Dayal, 338 Saray Murtja Khan, Khurja, Bulandshahr Uttar Pradesh 203131.</b> <b>A/c No.: 160000710545</b> <b>(CERSAI ID: 400062664405)</b>	Immovable Residential Property Measuring 73.12 Sq. Mtr. Located At Part Of Khasra No 1711 Mohalla Saray Murtja Khan Near Budh Bazar Khurja Pargana And Tehsil Khurja Distt Bulndshahr Uttar Pradesh 203131 And Owned By Rajesh Kumar C/o Late Shri Raghuvir Dayal and Bounded as: North: Gali 6 Feet Wide, South: House of Sellers (Mrs. Maya Devi), East: House of Mr. Suresh, West: Gali 6 Feet Wide.	<b>Demand Notice Date: 20.06.2024</b> <b>Possession Notice Date: 31.08.2024</b>	Rs. 22,26,527.12 + Further Interest & other Charge. (Rs. 22,12,390.12 As on 31.08.2024 and interest thereon)

Regional Office: Hapur.

Authorised Officer Canara Bank



**Canara Bank**  
A Government of India Undertaking

**Recovery Section, Circle Office,**  
**7th Floor, Ansal Towers, 38, Nehru Place,**  
**New Delhi - 110019**  
**Phone No. 011-26292604; 26419921**

**E-AUCTION**  
**SALE NOTICE**

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s) and Guarantor (s) that the below described movable/ immovable property mortgaged/hypothecated charged to the Secured Creditor, the possession of which has been taken by the Authorised Officer of the Canara Bank, will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" basis on below mentioned dates through E-Auction under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with Rule 8(6) & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002  
For detailed terms and conditions of the sale please refer the link "E-Auction" provided in provider E-bkay (M/s PSB Alliance Pvt. Ltd), (Contact No. 7046612345/635491072/8291220220/9892219848/8160205051, Email: support.ebkay@psballiance.com/ support.ebkay@procure247.com) or Canara Bank's website [www.canarabank.com](http://www.canarabank.com), EMD amount of 10% of the Reserve Price is to be deposited in E-Wallet of M/s PSB Alliance Private Limited (E-bkay) portal directly or by generating the Challan therein to deposit the EMD through RTGS/NEFT in the account details as mentioned in the said challan.

Sr. No.	Name of the Branch	Borrower / Guarantors / Mortgagor Name & Address	Details of movable/ immovable property and status of possession	Total Dues	a. Reserve Price (Rs) b. EMD (Rs) c. Incremental Bid (Rs) d. Date of Notice	Date & Time of Auction (With unlimited extensions of 5 minutes duration each)	Last Date & Time of Submission of EMD	The property can be inspected, with Prior Appointment with Authorized Officer & Contact Person
1	VASUNDHARA BRANCH, GHAZIABAD	Mrs. Aarti Khanna W/o Mr. Gaurav Kumar Khanna, H. No-21, Vidya Vihar, Dayanand Nagar, Ghaziabad-201001 Mr. Lokesh Kumar S/o Mr. Suresh Chand, H. No.- 64 3rd G Block, Nehru Nagar, Ghaziabad-201001	EMT of Residential House No-21, without Roof right, Ground Floor, Khasra No.- 463, 464, 468, 489, 490, 491 & 494, Vidhya Vihar, Village- Nasirpur, Pargana- Loni, Tehsil & Distt-Ghaziabad owned by Mrs Aarti Khanna W/o Mr. Gaurav Kumar Khanna, Admeasuring Area- 90 Sq. Meter, Boundary: East- Plot No-22, West-Plot No. 20, North-30' Wide Road, South-Plot No. 23. (This property is in Symbolic possession of the Bank)	Rs.31,60,154.94 as on 31.07.2024 and further interest at applicable rate from 01.08.2024 along with expenses, other charges, etc.	a. 34,88,000/- b. 3,48,800/- c. 20,000/- d. 31-08-2024	19-09-2024 between 12:30 PM to 01:30 PM	17.09.2024 up to 05.00 p.m.	13.09.2024 between 10.00 A.M to 5.00 P.M. Sh. Pankaj Kumar, Mob. No. 7428093522, Authorised Officer
2	MODINAGAR BRANCH, GHAZIABAD	M/s Anubhav Brick Field, Prop. Sh. Pushpendra Kumar Chaudhary S/o Sh. Satya Pal Singh, Village - Sonda, Sonda Road, Modinagar Distt- Ghaziabad -201204 Sh. Pushpendra Kumar Chaudhary S/o Sh. Satya Pal Singh, 22.R D Modi Complex, Niwari Road, Modinagar, Distt-Ghaziabad-201204 Sh. Monidra Kumar Chaudhary S/o Sh. Satya Pal Singh, 22.R D Modi Complex, Niwari Road, Modinagar, Distt-Ghaziabad-201204	All that part and parcel of House no.-214/6 (Municipal No.) in Mohalla R D Modi and Sons Enclave, Modinagar, Near Devender Puri constructed on Plot situated at Khasra No. 1285 of Village Begumabad, Budana, Pargana- Jalalabad, Tehsil-Modinagar, Distt-Ghaziabad situated at Nagarpalika 214/6 (Said property) owned by Mr. Pushpender Kumar and Mr Munendra Kumar, Admeasuring area 76.92 Sq. Mtrs. Boundary - North- Plot of Mr. Rakesh Gupta, South- Land of Subhash Chand, East-15 Feet wide Road, West - 15 Feet wide Road (This property is in Symbolic possession of the Bank)	Rs. 59,21,492.05 as on 31.07.2024 and further interest at applicable rate from 01.08.2024 along with expenses, other charges etc.,	a. 41,40,000/- b. 4,14,000/- c. 20,000/- d. 31-08-2024	19-09-2024 between 12:30 PM to 01:30 PM	17.09.2024 up to 05.00 p.m.	13.09.2024 between 10.00 A.M to 5.00 P.M. Sh. Pankaj Kumar, Mob. No. 7428093522, Authorised Officer
3	Ghaziabad Main-2 Branch	Sh. Madhav Parashar S/O Sh. Krishna Datt Parashar, 18 PH 2, ATS Green Paradiso, Plot No - GH-03, Sector CHI-04, Greater Noida, Distt-Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh, PIN-201308	A Residential Flat Number-18PH 2, ATS Green Paradiso, Plot No.- GH-03, Sector CHI-04, Greater Noida, Distt-Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh owned by Sh. Madhav Parashar S/O Sh. Krishna Datt Parashar, Admeasuring Area - 325.84 Sq. Mtrs. Boundaries : On the North: By Internal Road & Parks at Ground, On the South: By Lifts & Flat No. 18PH 1, On the East: By Internal Roads at Ground, On the West: By Internal Roads at Ground (This property is in Symbolic possession of the Bank)	Rs.1,44,47,990.85 as on 31.07.2024 and further interest at applicable rate from 01.08.2024 along with expenses, other charges, etc.	a. 256,00,000/- b. 25,60,000/- c. 25,000/- d. 28-08-2024	05-10-2024 between 12:30 PM to 01:30 PM	03.10.2024 up to 05.00 p.m.	01.10.2024 between 10.00 A.M to 5.00 P.M. Sh. Pankaj Kumar, Mob. No. 7428093522, Authorised Officer
4	Ramprastha Branch, Ghaziabad	Smt. Pushpa Sharma W/o Sh. Om Prakash Sharma, H. No.- B-227, 2nd Floor Brj Vihar, Ghaziabad-201011 Sh. Om Prakash Sharma S/o Sh. Mahanand Sharma, H. No. B-227, 2nd Floor, Brj Vihar, Ghaziabad-201011 Smt. Pushpa Sharma W/o Sh. Om Prakash Sharma. B-576/A Brj Vihar, Ghaziabad-201011 Sh. Om Prakash Sharma S/o Sh. Mahanand Sharma, B-576/A Brj Vihar, Ghaziabad-201011 Smt. Pushpa Sharma W/o Sh. Om Prakash Sharma, Flat No.- B- 617/a (1st Floor) (EWS) Block-B, Sector-8, BRIJ VIHAR, DISTT- GHAZIABAD-201011 Sh. Om Prakash Sharma S/o Sh. Mahanand Sharma, Flat No.- B- 617/A (1st Floor) (EWS) Block-B, Sector-8, Brj Vihar, Distt- Ghaziabad-201011	UREMENT of Residential Flat no.- B- 617/A (1st Floor) without roof right, (EWS) Block-B, Sector-8, Brj Vihar, Tehsil and Distt Ghaziabad in name of Smt Pushpa Sharma W/O Sh. Om Prakash Sharma. Admeasuring area 19.184 Sq Meter, Boundaries as below:- East- House no.616/A, West- House no.598/A, North- House no.618/A, South- 15 Meter wide Road Ground floor (This property is in Symbolic possession of the Bank)	Rs.18,10,269.84 as on 31.07.2024 and further interest at applicable rate along with expenses, other charges, etc.	a. 16,20,000/- b. 1,62,000/- c. 10,000/- d. 31-08-2024	19-09-2024 between 12:30 PM to 01:30 PM	17.09.2024 up to 05.00 p.m.	13.09.2024 between 10.00 A.M to 5.00 P.M. Sh. Pankaj Kumar, Mob. No. 7428093522, Authorised Officer
5	Shipra Sun City Branch, Ghaziabad	M/s R. K. Matching Centre (Prop: Mrs Sabra Begum), Shop No-RB - 23A, Basement Royal, Shipra Sun City-1, Indirapuram, Ghaziabad-201014 Mrs Sabra Begum W/o Mr. Noor Hasan alias Noor Husain, R/o - 4/251, Block No- 4, Khichripur, Delhi-110092 Mrs Sabra Begum W/o Mr. Noor Hasan alias Noor Husain, R/o - 4/252, Block No- 4, Khichripur, Delhi-110092 Mr. Noor Hasan alias Noor Husain S/o Mr. Ash Mohammad, R/o - 4/251, Block No- 4, Khichripur, Delhi-110092 Mr. Noor Hasan alias Noor Husain S/o Mr. Ash Mohammad, R/o - 4/252, Block No- 4, Khichripur, Delhi-110092	Shop No. RB-23A in Basement Royal in Shipra Sun City-1, Indirapuram, Tehsil & Distt Ghaziabad owned by Mrs Sabra Begum W/o Mr. Noor Hasan alias Noor Husain, Admeasuring area 8.83 Sq Meter with boundaries as below:- East- Shop No. RB-23B, West-Shop No. RB-22, North-Filling, South-Passage (This property is in Symbolic possession of the Bank)	Rs.13,93,655.31 as on 31.07.2024 and further interest at applicable rate from 01.08.2024 along with expenses, other charges, etc.	a. 8,02,000/- b. 80,200/- c. 10,000/- d. 31-08-2024	19-09-2024 between 12:30 PM to 01:30 PM	17.09.2024 up to 05.00 p.m.	13.09.2024 between 10.00 A.M to 5.00 P.M. Sh. Pankaj Kumar, Mob. No. 7428093522, Authorised Officer
6	Delhi Public School (DPS) Branch	Smt. Shikha W/o Sh. Rajesh Kumar, 347, Gali No. 5, Sewa Nagar, Ghaziabad Smt. Shikha W/o Sh. Rajesh Kumar, 388/34, Gali No. 5, Sewa Nagar, Ghaziabad Sh. Rajesh Kumar S/o Sh. Madhov Singh, 347, Gali No. 5, Sewa Nagar, Ghaziabad Smt. Sunita Sharma W/o Sh. Sushil Kumar, 522, Gali No. 5, Sewa Nagar, Ghaziabad	Land and building situated in Khasra No. 515, Village Ghookna, District- Ghaziabad (Now known as House No-388/34, Sewa Nagar, Ghaziabad) Owned by Mr. Rajesh Kumar S/o Mr. Madho Singh Admeasuring Area 51 Sq. Yards. Boundaries: East: 12 feet wide Road. West: Plot of Mr. Om Prakash. North: Plot of Mr. Sikandar. South: Property of Bharti Devi (This property is in Symbolic possession of the Bank)	Rs. 8,67,489.48 as on 31.07.2024 and further interest at applicable rate from 01.08.2024 along with expenses, other charges, etc.	a. 15,30,000/- b. 1,53,000/- c. 10,000/- d. 31-08-2024	19-09-2024 between 12:30 PM to 01:30 PM	17.09.2024 up to 05.00 p.m.	13.09.2024 between 10.00 A.M to 5.00 P.M. Sh. Pankaj Kumar, Mob. No. 7428093522, Authorised Officer
7	Vasundhara Branch, Ghaziabad	M/s Telesonic Electronics (Prop. Mr. Alimuddin Malik), House no 404, Gali no.1, 100 Futa Road, Nandgram, Hindon Vihar, Ghaziabad Mr. Alimuddin Malik S/o Shri Mohd Saddiq, House no.292, Gali No.1, Block-A, Kabir Nagar, Shahdara, Delhi Mr. Alimuddin Malik S/o Shri Mohd Saddiq, H. no.1735, Khasra no 404, Village Ghukna,, Pargana Loni, Tehsil and Distt- Ghaziabad Mr. Raj Bahadur Yadav S/o Shri Beepat Yadav, House no.61, Ram Shyam Garden, Chipiyana Burj, Greater Noida-201307	EMT of Residential House no.1735, Khasra no.404, situated at Village Ghukna, Pargana Loni, Tehsil and Distt Ghaziabad in name of Mr. Alimuddin Malik Admeasuring area 105 Sq Yard i.e. 87.70 Sq Meters Boundary : East - Rasta 20 Feet wide, West - Plot of Others, North- Plot of Others, South-Plot of Rampa (This property is in Symbolic possession of the Bank)	Rs.13,98,899.86 as on 31.07.2024 and further interest at applicable rate from 01.08.2024 along with expenses, other charges, etc	a. 25,05,000/- b. 2,50,500/- c. 20,000/- d. 31-08-2024	19-09-2024 between 12:30 PM to 01:30 PM	17.09.2024 up to 05.00 p.m.	13.09.2024 between 10.00 A.M to 5.00 P.M. Sh. Pankaj Kumar, Mob. No. 7428093522, Authorised Officer
8	Asset Recovery Management (ARM) Branch	M/s Victorious Real Estate Private Ltd., LIG DDA Flats, 268, Jaidev Park, East Punjabi Bagh, New Delhi, West Delhi, Delhi - 110026, Also at: 7B, Sanjay Nagar, Gulabi Bagh Near NKS Hospital Delhi, South West Delhi, Delhi- 110007 & Mayank Kumar (Director/guarantor) S/o Raj Narayan Pandey, H. No. 121, H-block, Karampora, West Delhi, Delhi-110015 Arvind Kumar (director/guarantor) S/o Naresh, Raushan Halwai K Samne Waki Gali, 98, Shyodutta-1, Gulavathi Rural Natthugari, Gulaathi, Bulandshahar, Uttar Pradesh- 245408 Anil Kumar Sharma (guarantor/mortgagor), S/o Late Jai Prakash Sharma, H. No. 233, Vivekanand Puri, Sarai Rohilla, New Delhi- 110007 & 211/1-b, Padam Nagar Kishanpuri Delhi - 110007	EMT of property at Municipal No 302 Area Measuring 222 Sq. Yards Approx. (Out of Total area measuring 1000 Sq. Yards Approx.) Situated at Bagh Kare Khan, Near Padam Nagar, Kishanganj, Delhi-110007 East: Part of Property No 302, West: Gali 15 ft Wide, North: Road 25 ft Wide, South: Part of Property No 302 (This property is in Symbolic possession of the Bank)	Rs. 58,18,465.82 as on 31.07.2024 and further interest at applicable rate from 01.08.2024 along with expenses, other charges, etc	a. 414,00,000/- b. 41,40,000/- c. 10,000/- d. 28-08-2024	20-09-2024 between 11:30 A.M. to 12:30 PM	18.09.2024 up to 05.00 p.m.	Prior Appointment with Authorised Officer between Sh Paritosh Kumar (Chief Manager) - 8828328297, and/or Mr. Manish Kumar Meena, Mob. 9958073549



